



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2424]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2014/अग्रहायण 7, 1936

No. 2424]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2014/AGRAHAYANA 7, 1936

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2014

का.आ. 3013(अ).—विकास परिषद् (क्रियाविधि) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के खण्ड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 2 (दो) वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा मशीन टूल्स उद्योग विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है:—

मशीन टूल्स उद्योग विकास परिषद्

(क) सरकारी और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि:-

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | सचिव, भारत सरकार
भारी उद्योग विभाग,
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 | —अध्यक्ष |
| 2. | संयुक्त सचिव (मशीन टूल्स डिवीजन के प्रभारी)
भारी उद्योग विभाग,
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 | —सदस्य सचिव |
| 3. | सलाहकार (उद्योग, ग्रामीण और लघु उद्यम)
योजना आयोग,
योजना भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 | —सदस्य |

4.	संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110011	—सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय विनिर्माणी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी), विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली- 110 011	—सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011	—सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011	—सदस्य
(ख)	औद्योगिक संघ और उद्योग के प्रतिनिधि	
8.	अध्यक्ष, इण्डियन मशीन टूल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (आईएमटीएमए), बेंगलोर	—सदस्य
9.	अध्यक्ष, टूल एण्ड गॉज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (टीएजीएमए), मुम्बई	—सदस्य
10.	अध्यक्ष, कनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज (सीआईआई), नई दिल्ली	—सदस्य
11.	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), नई दिल्ली	—सदस्य
12.	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची-834 004	—सदस्य
13.	प्रबंध निदेशक, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलोर -560 032	—सदस्य
14.	कार्यकारी निदेशक, अशोक मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड, दिल्ली	—सदस्य
15.	प्रबंध निदेशक, आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, यमुनानगर- 135 001(हरियाणा)	—सदस्य

(ग) प्रयोक्ता विभागों, उद्योग संघ के प्रतिनिधि

- | | | |
|-----|--|--------|
| 16. | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सेन्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन फोर मोडरनाइजेशन ऑफ वर्कशॉप,
रेलवे कार्यालय कॉम्पलेक्स,
तिलक ब्रिज, नई दिल्ली | —सदस्य |
| 17. | महानिदेशक,
आयुध निर्माणी बोर्ड,
कोलकाता | —सदस्य |
| 18. | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली | —सदस्य |
| 19. | महानिदेशक
सोसायटी फोर इण्डियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएम),
नई दिल्ली | —सदस्य |
| 20. | अध्यक्ष,
ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए),
नई दिल्ली | —सदस्य |

(घ) अनुसंधान संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि

- | | | |
|-----|---|--------|
| 21. | निदेशक,
सेन्ट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नॉलोजी इंस्टीट्यूट (सीएमटीआई),
बेंगलोर | —सदस्य |
| 22. | महानिदेशक,
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ),
नई दिल्ली | —सदस्य |
| 23. | डा. डी. योगेश्वर राव, वैज्ञानिक जी,
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय | —सदस्य |
| 24. | विभागाध्यक्ष, मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास | —सदस्य |
| 25. | विभागाध्यक्ष, मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर | —सदस्य |

विकास परिषद् (क्रियाविधि) नियम 1952 के नियम 2 की धारा (ग) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार संयुक्त सचिव, मशीन टूल्स उद्योग के प्रभारी, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली को कथित विकास परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु एतद् द्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1(2)2014-एचईएण्डएमटी]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**(Department of Heavy Industry)****ORDER**

New Delhi, the 28th November, 2014

S.O. 3013(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, the following persons to be members of the Development Council for the Machine Tools Industry, namely:—

DEVELOPMENT COUNCIL FOR MACHINE TOOLS INDUSTRY**(a) Government and other Institutional Representatives**

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Secretary to the Government of India,
Department of Heavy Industry,
Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises,
Udyog Bhavan, New Delhi-110011. | —Chairman |
| 2. | Joint Secretary (in-charge of Machine Tools Division),
Department of Heavy Industry,
Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises
Udyog Bhavan, New Delhi-110011. | —Member-Secretary |
| 3. | Adviser (Industries, Village and Small Enterprises),
Planning Commission,
Yojana Bhavan,
Sansad Marg, New Delhi-110001. | —Member |
| 4. | Joint Secretary,
Department of Revenue,
North Block, New Delhi-110011. | —Member |
| 5. | Joint Secretary,
National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC),
Vigyan Bhavan Annexe,
New Delhi-110011. | —Member |
| 6. | Joint Secretary,
Department of Industrial Policy and Promotion,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011. | —Member |
| 7. | Joint Secretary,
Department of Commerce,
Udyog Bhavan, New Delhi-110011. | —Member |

(b) Representatives from Industry Association and Industry

- | | | |
|-----|---|---------|
| 8. | President,
Indian Machine Tool Manufacturer' Association (IMTMA),
Bangalore. | —Member |
| 9. | President,
Tools and Gauge Manufacturers Association of India (TAGMA),
Mumbai. | —Member |
| 10. | President,
Confederation of Indian Industries (CII),
New Delhi. | —Member |
| 11. | President,
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI),
New Delhi. | —Member |
| 12. | Chairman-cum-Managing Director,
Heavy Engineering Corporation Ltd.,
Ranchi-834004. | —Member |
| 13. | Managing Director,
HMT Machine Tools Limited,
Bangalore-560032. | —Member |
| 14. | Executive Director,
Ashok Manufacturing Company Private Ltd.,
Delhi. | —Member |
| 15. | Managing Director,
ISGEC Heavy Engineering Ltd.,
Yamunanagar-135001 (Haryana). | —Member |

(c) Representatives of User Departments, Industry Association

- | | | |
|-----|---|---------|
| 16. | Chief Administrative Officer,
Central Organization for Modernization of Workshops,
Railway Offices Complex,
Tilak Bridge, New Delhi. | —Member |
| 17. | Director General,
Ordnance Factory Board,
Kolkata. | —Member |

- | | | |
|-----|--|---------|
| 18. | Chairman & Managing Director,
Bharat Heavy Electricals Limited,
New Delhi. | —Member |
| 19. | Director General,
Society for Indian Automobile Manufacturers (SIAM),
New Delhi. | —Member |
| 20. | President,
Automotive Component Manufacturer Association (ACMA),
New Delhi. | —Member |

(d) Representatives of Research Institutions and Academia

- | | | |
|-----|--|---------|
| 21. | Director,
Central Manufacturing Technology Institute (CMTI),
Bangalore. | —Member |
| 22. | Director General,
Defence Research & Development Organisation (DRDO),
New Delhi. | —Member |
| 23. | Dr. D. Yogeswara Rao, Scientist G,
Office of Principal Scientific Adviser to the Government of India. | —Member |
| 24. | Head of Department, Mechanical Engineering,
Indian Institute of Technology, Madras. | —Member |
| 25. | Head of Department, Mechanical Engineering,
Indian Institute of Technology, Kharagpur. | —Member |

In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Joint Secretary, in-charge of the Machine Tools Industry, Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, New Delhi to carry on the functions of the Secretary to the said Development Council.

[F. No. 1(2)/2014-HE&MT]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.